



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 फाल्गुन 1945 (श0)
(सं0 पटना 161) पटना, मंगलवार, 27 फरवरी 2024

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना
16 फरवरी 2024

सं० सं० 6/एन0-08-74/2017-341(6) स्वा0—विकसित बिहार के सात निश्चय में एक निश्चय “अवसर बड़े आगे पड़े” के अन्तर्गत राज्य में तकनीकी शिक्षा के अवसरों को और बढ़ाने एवं युवाओं को राज्य में ही तकनीकी शिक्षा का बेहतर अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से राज्य के अन्तर्गत सरकारी प्रक्षेत्र में निम्नलिखित नर्सिंग संस्थानों को नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशनस ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के आलोक में उनके सम्मुख अंकित पाठ्यक्रमों तथा सीटों की संख्या के साथ नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने की मान्यता प्रदान की जाती है:—

क्र० सं०	संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	संबद्ध अस्पताल	सीटों की संख्या
01	ए0एन0एम0 स्कूल, मंझौल, बेगुसराय।	ए0एन0एम0	अनुमण्डलीय अस्पताल, मंझौल, बेगुसराय।	60 (साठ)
02	ए0एन0एम0 स्कूल, मधेपुरा।	ए0एन0एम0	सदर अस्पताल, मधेपुरा।	60 (साठ)
03	ए0एन0एम0 स्कूल, नवगछिया, भागलपुर।	ए0एन0एम0	अनुमण्डलीय अस्पताल, नवगछिया, भागलपुर।	60 (साठ)
04	ए0एन0एम0 स्कूल, पालीगंज, पटना।	ए0एन0एम0	अनुमण्डलीय अस्पताल, पालीगंज, पटना।	60 (साठ)
05	ए0एन0एम0 स्कूल, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण।	ए0एन0एम0	अनुमण्डलीय अस्पताल, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण।	60 (साठ)
06	ए0एन0एम0 स्कूल, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण।	ए0एन0एम0	अनुमण्डलीय अस्पताल, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण।	60 (साठ)
07	ए0एन0एम0 स्कूल, फुलपरास, मधुबनी।	ए0एन0एम0	अनुमण्डलीय अस्पताल, फुलपरास, मधुबनी।	60 (साठ)
08	ए0एन0एम0 स्कूल, धमदाहा, पूर्णियाँ।	ए0एन0एम0	अनुमण्डलीय अस्पताल, धमदाहा, पूर्णियाँ।	60 (साठ)
09	ए0एन0एम0 स्कूल, बायसी, पूर्णियाँ।	ए0एन0एम0	अनुमण्डलीय अस्पताल, बायसी, पूर्णियाँ।	60 (साठ)

क्र० सं०	संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	संबद्ध अस्पताल	सीटों की संख्या
10	जी०एन०एम० संस्थान, मधुबन, सीतामढ़ी।	जी०एन०एम०	सदर अस्पताल, सीतामढ़ी।	60 (साठ)
11	जी०एन०एम० संस्थान, मोतिहारा, किशनगंज।	जी०एन०एम०	सदर अस्पताल, किशनगंज।	60 (साठ)
12	जी०एन०एम० संस्थान, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा।	जी०एन०एम०	भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा।	60 (साठ)
13	जी०एन०एम० संस्थान, बुद्धौल, नवादा।	जी०एन०एम०	सदर अस्पताल, नवादा।	60 (साठ)
14	बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पूर्णियाँ।	बी०एस०सी० नर्सिंग	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पूर्णियाँ।	60 (साठ)
15	बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बेतिया।	बी०एस०सी० नर्सिंग	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बेतिया।	60 (साठ)
16	बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, सारण, छपरा।	बी०एस०सी० नर्सिंग	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, सारण, छपरा तथा सदर अस्पताल, सारण, छपरा।	60 (साठ)
17	बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर।	बी०एस०सी० नर्सिंग	श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर।	60 (साठ)

2—संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। संबंधित जिले के सिविल सर्जन समय-समय पर अपने जिले के क्षेत्रान्तर्गत नर्सिंग संस्थानों की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे तथा सरकार को प्रतिवेदित करेंगे।

3—नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ़ एकजामिनेशन्स ऑफ़ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।

4—संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, (ii) संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, तथा (iii) संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 161-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>